



स मा चार

जनता की जिंदगी को बदलना ही मेरा ध्येय है - मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने की देवतालाब को नगर पंचायत तथा तहसील बनाने की घोषणा सर्वे करके सोलर प्लांट तथा गौ अभ्यारण्य के लिए स्थान होगा निर्धारित

रीवा 31 अक्टूबर 2021. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा जिले के देवतालाब पहुंचे। मुख्यमंत्री ने देवतालाब स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के अनुरोध पर देवतालाब को नगर पंचायत तथा तहसील बनाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण करके सोलर प्लांट लगाने के लिए स्थान तय किया जाएगा। कलेक्टर गौ अभ्यारण्य की स्थापना के लिए सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। देवतालाब बहुत पवित्र स्थल है। देवतालाब के शिव मंदिर का जीणोद्धार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने देवतालाब तथा ढेरा में सीएम राइजिंग स्कूल खोलने एवं बहुती तथा सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री जी ने 99 करोड़ 77 लाख रूपए के 59 कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने मुख्यमंत्री द्वारा मांगे माने जाने पर उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन करके बेटियों का सम्मान किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सीतापुर से रायपुर कर्चुलियान सड़क का नाम क्षेत्र के शहीद दीपक सिंह स्मृति सड़क करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम की आठ दिवसीय साइकिल यात्रा का समापन किया। उन्होंने साइकिल यात्रा में शामिल यात्रियों का सम्मान किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना काल की कड़की के बावजूद जनकल्याण के कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विन्ध्य क्षेत्र के किसान गेहू तथा धान उत्पादन में रिकार्ड बना रहे हैं। यहां के किसान पंजाब को भी कुछ दिनों में मात दे देंगे। खेती के विकास के लिए सिंचाई सुविधा होना आवश्यक है। नईगढ़ी लिफ्ट इरिगेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा। बहुती नहर तथा जिले के अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर बाणसागर की नहर पहुंचाने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 17 माह में किसानों को 172 हजार करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में प्रदान की गई है। मेरी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। लोगों का जीवन बदलना मेरा ध्येय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भू अधिकार योजना से हर गरीब परिवार को आवासीय भूमि का पट्टा निःशुल्क दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुनः सर्वेक्षण कराकर इनमें पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। संबल योजना पुनः शुरू कर दी गई है। गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उनकी फीस सरकार भरेगी। प्रदेश में इस वर्ष एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। जनसभा से पहले मुख्यमंत्री जी ने देवतालाब के प्रसिद्ध



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Indira Gandhi Vidhan Bhawan,

Arera Hills, Bhopal (M.P.)

स मा चार

शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय भवन का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी की पहले की दो साइकिल यात्राओं के समापन पर कालेज तथा 116 लाख रूपए की सड़क का उपहार दिया गया था। इस साइकिल यात्रा के समापन में भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो मांगे रखी हैं उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

समारोह में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी सभी साइकिल यात्राओं का समापन किया और हर यात्रा में क्षेत्र को सौगातें दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने देवतालाब को नगर पंचायत तथा तहसील बनाने, सोलर प्लांट की स्थापना, गौ अभ्यारण्य की स्थापना, सीतापुर से रायपुर कर्चुलियान सड़क का नाम शहीद दीपक सिंह के नाम पर रखने नईगढी में कृषि उपज मण्डी की स्थापना, तीन सीएम राइजिंग स्कूलों की स्थापना, देवतालाब मंदिर के जीर्णोद्धार तथा देवतालाब में रेस्ट हाउस निर्माण की मांग रखी।

समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र, पिछड़ावर्ग आयोग के सदस्य तथा विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेन्द्र शुक्ल, विधायक त्योंथर श्री श्यामलाल द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री श्री राजेश पाण्डेय, जिला अध्यक्ष भाजपा डॉ. अजय सिंह, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राहुल गौतम, श्री रणविजय सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माया सिंह, श्री मदन मोहन गुप्त, श्री सुरेन्द्र सिंह चंदेल, कमिश्नर रीवा संभाग श्री अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा हजारों आमजन उपस्थित रहे।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव

दूरभाष : जनसंपर्क शाखा: (+91-755) 2523065, 2523028, 2440221 फैक्स: (+91-755) 2440238

ई-मेल : vidhansabha-mp@nic.in वेबसाइट : <http://www.mpvidhansabha.nic.in>